



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2009/कार्तिक 29, 1931

No. 32]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2009/KARTIKA 29, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

सं. 5/2009

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2009

No. 5/2009

फा. सं. 26/8/2006-प्रशा. 1ग.—सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण सदस्यों (भर्ती और सेवा शर्तों) की नियमावली, 1987 के नियम 8(3) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण के सदस्य (न्यायिक) श्री पी. के. दास को इसके द्वारा तत्काल सेवा से मुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके नाम से।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

F. No. 26/8/2006-Ad. IC.—In pursuance of Rule 8(3) of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1987, the President hereby discharges forthwith Shri P. K. Das, Member (Judicial) in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal from service.

2. By Order and in the Name of the President.

VICTOR JAMES, Under Secy.